

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2010—माघ 16, शक 1931

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत निर्वाचन),
जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11441-पं.नि.-आरक्षण-जि.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज
एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 सहपठित मध्यप्रदेश
पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जिला पंचायत,
देवास के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित
किया जाता है:—

| जिला पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|-------|---|---------------------|
| देवास | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनुसूचित जाति |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-----------------------|
| देवास | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनुसूचित जनजाति |
| | 12 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 13 | अनुसूचित जनजाति |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11442-पं.नि.-आरक्षण-जि.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज
एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 25(2) सहपठित
मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के तहत देवास जिले की

जनपद पंचायतों में अध्यक्ष पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| क्रमांक | जनपद पंचायत का नाम | पद | आरक्षण का प्रकार |
|---------|-----------------------|---------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | जनपद पंचायत, देवास | अध्यक्ष | अनारक्षित |
| 2 | जनपद पंचायत, सोनकच्छ | अध्यक्ष | अनुसूचित जनजाति |
| 3 | जनपद पंचायत, टोकखुर्द | अध्यक्ष | पिछड़ा वर्ग |
| 4 | जनपद पंचायत, बागली | अध्यक्ष | अनुसूचित जाति महिला |
| 5 | जनपद पंचायत, कन्नौद | अध्यक्ष | अनारक्षित महिला |
| 6 | जनपद पंचायत, खातेगांव | अध्यक्ष | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11443-पं.नि.-आरक्षण-ज.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जनपद पंचायत, देवास के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | आरक्षित वर्ग |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| देवास | 1 | अनुसूचित जाति |
| | 2 | अनुसूचित जाति |
| | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-------------------|
| देवास | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 21 | पिछड़ा वर्ग |
| | 22 | अनारक्षित महिला |
| | 23 | अनारक्षित महिला |
| | 24 | अ.ज.जा. महिला |
| | 25 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11443-पं.नि.-आरक्षण-ज.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जनपद पंचायत, सोनकच्छ के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | आरक्षित वर्ग |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| सोनकच्छ | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनुसूचित जाति |
| | 4 | अनुसूचित जाति |
| | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनुसूचित जाति |
| | 16 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 17 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11443-पं.नि.-आरक्षण-ज.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जनपद पंचायत, टोंकखुर्द के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | आरक्षित वर्ग |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| टोंकखुर्द | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनुसूचित जाति |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11443-पं.नि.-आरक्षण-ज.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जनपद पंचायत, बागली के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | आरक्षित वर्ग |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| बागली | 1 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-----------------------|
| बागली | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनुसूचित जाति |
| | 7 | अनुसूचित जाति |
| | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनुसूचित जनजाति |
| | 17 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 18 | अनुसूचित जनजाति |
| | 19 | अनुसूचित जनजाति |
| | 20 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 21 | अनुसूचित जनजाति |
| | 22 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 23 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 24 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 25 | अनुसूचित जनजाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11443-पं.नि.-आरक्षण-ज.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जनपद पंचायत, कन्नौद के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | आरक्षित वर्ग |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| कन्नौद | 1 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 2 | अनुसूचित जनजाति |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|------|-----|-----------------------|
| कनौद | 7 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 8 | अनुसूचित जनजाति |
| | 9 | अनुसूचित जनजाति |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 15 | अनुसूचित जनजाति |
| | 16 | अनुसूचित जनजाति |
| | 17 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 18 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 21 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 22 | अनुसूचित जाति |
| | 23 | अनारक्षित महिला |
| | 24 | अनारक्षित |
| | 25 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11443-पं.नि.-आरक्षण-ज.पं.-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के तहत जनपद पंचायत, खातेगांव के निर्वाचन क्षेत्रों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | आरक्षित वर्ग |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| खातेगांव | 1 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 2 | अनुसूचित जाति |
| | 3 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 4 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अनुसूचित जनजाति |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|-----|---------------------|
| खातेगांव | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनुसूचित जाति |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अनुसूचित जनजाति |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 21 | अनुसूचित जाति महिला |
| | 22 | अनुसूचित जनजाति |
| | 23 | अनारक्षित महिला |
| | 24 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11445-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 के तहत जनपद पंचायत, देवास की ग्राम पंचायत के सरपंच पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | क्रमांक ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण का प्रकार |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| देवास | 1 जवासिया | अनारक्षित महिला |
| | 2 दत्तोत्तर | अनारक्षित |
| | 3 पंथ मुण्डला | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 भैसूनी (वि.मण्डी) | अनारक्षित महिला |
| | 5 बरखेडा कायम | अनारक्षित महिला |
| | 6 लसुडिया सोण्डा | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 सोण्डा | अनारक्षित |
| | 8 रालामण्डल | अनारक्षित महिला |
| | 9 अकाल्या | अनुसूचित जाति |
| | 10 कवडी | अनारक्षित |
| | 11 आगरोद | पि. वर्ग महिला |
| | 12 उपडी | अनारक्षित महिला |
| | 13 बिजेपुर | पि. वर्ग महिला |
| | 14 बगाना | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------------|
| देवास | 15 टिगरिया सॉंचा | पि. वर्ग महिला | देवास | 52 भड़ा पिपल्या | अनारक्षित महिला |
| | 16 पटलावदा | अनुसूचित जाति | | 53 बागरदा | अनारक्षित महिला |
| | 17 लिम्बोदा | पि. वर्ग महिला | | 54 गुराडिया भील | अनारक्षित महिला |
| | 18 अजीजखेडी | अनारक्षित | | 55 भानगढ़ | अनुसूचित जाति |
| | 19 निपान्या | पि. वर्ग महिला | | 56 सिरोल्या | अनुसूचित जाति महिला |
| | 20 मेढकीधाकड | अनारक्षित | | 57 नापाखेडी | अनारक्षित महिला |
| | 21 छोटा मालसापुरा | पि. वर्ग महिला | | 58 मोरूखेडी | अनुसूचित जाति |
| | 22 सिवा | अनारक्षित | | 59 भाटखेडी | अनारक्षित |
| | 23 बांगर | पिछड़ा वर्ग | | 60 पत्थर गुराडिया | अनारक्षित महिला |
| | 24 लसुडिया छत्रधार | अनारक्षित | | 61 टिगरिया गोगा | पिछड़ा वर्ग |
| | 25 सिंगावदा | अनुसूचित जाति | | 62 कैलोद | पि. वर्ग महिला |
| | 26 अमरपुरा | अनारक्षित महिला | | 63 सदाशिवपुरा | पिछड़ा वर्ग |
| | 27 आनन्दपुर डुंगरिया | अनारक्षित महिला | | 64 बरोठा | अनुसूचित जाति महिला |
| | 28 देवर | अनुसूचित जाति महिला | | 65 नारियाखेडा | अनुसूचित जनजाति |
| | 29 बैरागढ़ | अनारक्षित | | 66 सुतारखेडा | अनारक्षित |
| | 30 खटाम्बा | पिछड़ा वर्ग | | 67 खतेडिया | अनारक्षित |
| | 31 जामगोद | अनुसूचित जाति | | 68 सन्नौड़ | अनारक्षित |
| | 32 पुवाल्डा | अनारक्षित महिला | | 69 पटाडी | अनुसूचित जाति महिला |
| | 33 लौहारी | अनुसूचित जाति | | 70 पर्वतपुरा | अनुसूचित जाति |
| | 34 चन्दाना | पिछड़ा वर्ग | | 71 दखनाखेडी | अनारक्षित |
| | 35 गदइशापिपल्या | पिछड़ा वर्ग | | 72 चौबापिपल्या | अनुसूचित जाति महिला |
| | 36 लौहार पिपल्या | अनारक्षित | | 73 सारोल | अनारक्षित |
| | 37 सुकल्या (क्षिप्रा) | अनुसूचित जाति महिला | | 74 बराय | पि. वर्ग महिला |
| | 38 सुनवानी महाकाल | अनारक्षित | | 75 मिर्जापुर | अनुसूचित जाति महिला |
| | 39 राजोदा | अनुसूचित जनजाति महिला | | 76 बारोली | अनुसूचित जाति |
| | 40 बालोदा | अनुसूचित जाति महिला | | 77 अखेपुर | पिछड़ा वर्ग |
| | 41 बरखेडा कोतापाई | पि. वर्ग महिला | | 78 अकबरपुर | पि. वर्ग महिला |
| | 42 गुजर बापच्या | अनुसूचित जाति महिला | | 79 राघोगढ़ | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 43 कानकुण्ड | अनारक्षित महिला | | 80 मुण्डाहेडा | पिछड़ा वर्ग |
| | 44 आँक्या | अनुसूचित जनजाति | | 81 सुनावानी गोपाल | अनारक्षित महिला |
| | 45 आवल्या पिपल्या | अनारक्षित | | 82 साबुखेडी | अनारक्षित |
| | 46 खोखरिया | अनुसूचित जनजाति महिला | | 83 रामगढ़ जंगली | अनारक्षित महिला |
| | 47 जलोदिया | अनारक्षित महिला | | 84 मांगरोला | अनारक्षित महिला |
| | 48 बड़ी चुरलाय | अनारक्षित | | 85 खजूरिया | अनारक्षित |
| | 49 कुमारिया | अनुसूचित जाति महिला | | 86 आंट | अनारक्षित महिला |
| | 50 टिगरिया छोटा | अनारक्षित | | 87 अचलूखेडी | अनारक्षित |
| | 51 छापरी | अनारक्षित महिला | | 88 नागूखेडी | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---------------|---------------------|
| देवास 89 | रूपाखेडी | पि. वर्ग महिला |
| 90 | टिमरनी | अनुसूचित जाति महिला |
| 91 | सुनवानी कराड़ | अनारक्षित |
| 92 | पटाड़ा | अनारक्षित महिला |
| 93 | टिनोन्या | पिछड़ा वर्ग |
| 94 | सुतली | अनुसूचित जाति |
| 95 | हैबतपुरा | पि. वर्ग महिला |
| 96 | सिरोंज | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11445-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-07.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 के तहत ग्राम पंचायत सरपंच पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण का प्रकार |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| सोनकच्छ 1 | पीरपाडल्या | अनुसूचित जाति महिला |
| 2 | मुरम्या | अनुसूचित जनजाति |
| 3 | घट्टियाकला | अनारक्षित |
| 4 | घिचलाय | महिला |
| 5 | धंधेड़ा | अनुसूचित जाति |
| 6 | निपानिया हुर-हुर | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 7 | लकुमड़ी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 8 | खुटखेड़ा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 9 | जोलाय | अनुसूचित जाति महिला |
| 10 | पटाड़िया नजदीक | अनारक्षित |
| 11 | कुमारिया बनवीर | अनारक्षित |
| 12 | खेरियाजागीर | अनुसूचित जाति |
| 13 | टुंगनी | अनारक्षित |
| 14 | पटाड़ियाताज | अनारक्षित |
| 15 | गढ़खजुरिया | अनारक्षित |
| 16 | रजापुर | अनारक्षित |
| 17 | जामगोद | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|---------------|---------------------|
| सोनकच्छ 18 | तालोद | पिछड़ा वर्ग |
| 19 | छायनमैना | अनुसूचित जाति |
| 20 | गंधर्वपुरी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 21 | काछिगुराड़िया | अनारक्षित |
| 22 | धतुरियाराम | अनुसूचित जाति |
| 23 | खजुरियाकंका | महिला |
| 24 | दुदलाई | अनारक्षित |
| 25 | जामोदी | महिला |
| 26 | हरनावदा | अनारक्षित |
| 27 | बैराखेड़ी | अनुसूचित जाति महिला |
| 28 | लौंदिया | अनुसूचित जाति महिला |
| 29 | कचनारिया | अनुसूचित जाति |
| 30 | देहरी | अनुसूचित जाति महिला |
| 31 | एनाबाद | अनुसूचित जाति |
| 32 | भूतियाखुर्द | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 33 | बीसाखेड़ी | महिला |
| 34 | मनासा | महिला |
| 35 | कुमारियाराव | महिला |
| 36 | सादीखेड़ा | महिला |
| 37 | ढाबला जागीर | महिला |
| 38 | कुलाला | पिछड़ा वर्ग |
| 39 | भलाईखुर्द | महिला |
| 40 | बोलासा | अनारक्षित |
| 41 | कांकड़दा | अनुसूचित जाति |
| 42 | खोनपिरपिल्या | महिला |
| 43 | बुधनगांव | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 44 | फावड़ा | पिछड़ा वर्ग |
| 45 | सरसौदा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 46 | डकाच्या | अनारक्षित |
| 47 | पांदाजागीर | पिछड़ा वर्ग |
| 48 | पोलाय जागीर | पिछड़ा वर्ग |
| 49 | बावई | पिछड़ा वर्ग |
| 50 | सांवेर | महिला |
| 51 | औड़ | अनारक्षित |
| 52 | रोलुपिल्या | महिला |
| 53 | जलेरिया | अनुसूचित जाति महिला |
| 54 | भागसरा | अनुसूचित जाति महिला |
| 55 | जगदीशपुर | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|--------------|-----------------------|
| सोनकच्छ 56 | पिपल्याबक्सू | अनुसूचित जाति महिला |
| 57 | घट्टियाभाना | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 58 | दौलतपुर | अनुसूचित जाति |
| 59 | अगेरा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 60 | पारदिखेड़ा | अनुसूचित जाति |
| 61 | चौबाराजागीर | अनुसूचित जाति महिला |
| 62 | मुण्डलाआना | अनुसूचित जाति महिला |
| 63 | चांदाखेड़ी | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 64 | जामली | अनारक्षित |
| 65 | जलोदिया | महिला |
| 66 | लालाखेड़ी | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11445-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 के तहत ग्राम पंचायत सरपंच पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद पंचायत का नाम (1) | ग्राम पंचायत गजट अनुसार अनु. क्र./नाम (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| टोंकखुर्द | 1. कराडिया | अनारक्षित महिला |
| | 2. पान्दा | अ. जा. |
| | 3. धतुरिया | अनारक्षित महिला |
| | 4. चिडावद | अनारक्षित महिला |
| | 5. भेरवाखेड़ी | पिछड़ा वर्ग |
| | 6. हरनावदा | अनारक्षित |
| | 7. राबडिया | अनारक्षित महिला |
| | 8. फतेपुरखेड़ा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9. सेकली | अनारक्षित महिला |
| | 10. रणायलकलां | अनारक्षित महिला |
| | 11. विजयगढमुरम्या | अ. जा. |
| | 12. जनोलीखुर्द | अ. जा. महिला |
| | 13. डिंगरोदा | अनारक्षित |
| | 14. दोन्ताजागीर | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|----------------|-------------------|
| टोंकखुर्द 15 | आलरी | अनारक्षित |
| 16 | खरेली | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 17 | पीपल्यासड़क | अनारक्षित |
| 18 | पाडल्या | अ. जा. महिला |
| 19 | बरखेडा | अनारक्षित महिला |
| 20 | जसम्या | अनारक्षित |
| 21 | रतनखेडी | अनारक्षित |
| 22 | रन्धनखेडी | अनारक्षित |
| 23 | टोंककलां | अनारक्षित महिला |
| 24 | कलमा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 25 | नावदा | अनारक्षित |
| 26 | नान्देल | अ. जा. |
| 27 | कन्हेरिया | अनारक्षित |
| 28 | फतनपुर | पिछड़ा वर्ग |
| 29 | पोलाय | अनारक्षित |
| 30 | आगरोद | अनारक्षित महिला |
| 31 | गोरवा | अ. जा. |
| 32 | मूडलादेव | अ.जा. महिला |
| 33 | अमोना | पिछड़ा वर्ग |
| 34 | खेडामाधोपुर | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 35 | लसुडियाकुलमी | अनारक्षित महिला |
| 36 | सेडू | अनारक्षित |
| 37 | बरदू | पिछड़ा वर्ग |
| 38 | जमोडी | अ.जा. महिला |
| 39 | जमोनिया | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 40 | गुराडियासुरदास | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 41 | भोलखेडी | अनारक्षित महिला |
| 42 | बालोन | अ. जा. |
| 43 | लसूडियाब्राहमण | अनारक्षित महिला |
| 44 | मूडलादांगी | अनारक्षित महिला |
| 45 | किन्दूरिया | अनारक्षित महिला |
| 46 | इकलेरा | अ.जा. महिला |
| 47 | कल्लूखेडी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 48 | खेडीराजपुरा | अ.जा. |
| 49 | भुतियाबुजुर्ग | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 50 | सालमखेडी | अ.जा. महिला |
| 51 | चौबाराधीरा | अनारक्षित महिला |
| 52 | जीवाजीगढ | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|---|----------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|
| टोंकखुर्द | 53 देवगुराडिया | अ.जा. | बागली | 19 महुखेडा | अ.जा. |
| | 54 देवली | अनारक्षित | | 20 देहरियासाहू | अ.जा. महिला |
| | 55 जिरवाय | पिछड़ा वर्ग | | 21 चाँसिया | अनारक्षित महिला |
| | 56 पान्डी | अ.जा. महिला | | 22 झीकडाखेडा | अ.जा. |
| | 57 संवरसी | पिछड़ा वर्ग | | 23 भमौरी | अ.ज.जा. |
| | 58 बुदासा | पिछड़ा वर्ग | | 24 मकुन्दगढ | अ.ज.जा. महिला |
| | 59 नागपचलाना | अनारक्षित | | 25 धावडिया | अनारक्षित महिला |
| सचिन सिन्हा, कलेक्टर. | | | | 26 इकलेरा | अनारक्षित महिला |
| देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009 | | | | 27 बिज्जूखेडा | अनारक्षित महिला |
| क्र. 11445-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 के तहत ग्राम पंचायत सरपंच पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:— | | | | 28 गुवाडी | अ.ज.जा. महिला |
| जनपद | अ.क्र. ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण का प्रकार | | 29 चारबडी | अ.ज.जा. महिला |
| पंचायत का नाम | | | | 30 करौंदिया | अनारक्षित |
| (1) | (2) | (3) | | 31 छतरपुरा | अ.जा. महिला |
| | | | | 32 पुंजापुरा | अनारक्षित |
| बागली | 1 बोरखेडापूर्व्या | अनारक्षित | | 33 पलासी | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 घटियागयासुर | अनारक्षित | | 34 चन्दुपुरा | अ.जा. महिला |
| | 3 पोनासा | अ.जा. महिला | | 35 करडी | अ.ज.जा. |
| | 4 नेवरी | अ.जा. महिला | | 36 सोबल्यापुरा | अ.ज.जा. |
| | 5 मानकुण्ड | अ.ज.जा. | | 37 बिलावली | अनारक्षित |
| | 6 देवगढ | अ.ज.जा. | | 38 इस्माईलखेडी | अनारक्षित महिला |
| | 7 बडियामाण्डु | अनारक्षित महिला | | 39 सामगी | अनारक्षित महिला |
| | 8 मनापीपल्या | अनारक्षित महिला | | 40 कमलापुर | अनारक्षित महिला |
| | 9 हाथीगुराडिया | अनारक्षित | | 41 गोपीपुर | अ.ज.जा. |
| | 10 टप्पासुकल्या | अनारक्षित महिला | | 42 खेडाखाल | अ.ज.जा. |
| | 11 बारोली | अनारक्षित महिला | | 43 आगुली | अनारक्षित महिला |
| | 12 कांझर | अनारक्षित | | 44 पिपल्याजॉन | अनारक्षित महिला |
| | 13 कवडिया | अनारक्षित महिला | | 45 मातमौर | अ.जा. महिला |
| | 14 डिगोद | अनारक्षित | | 46 गुराडियाकाला | अनारक्षित |
| | 15 गुसट | अनारक्षित | | 47 पानकुआ | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 बामनी | अ.ज.जा. | | 48 आगराखुर्द | अ.ज.जा. महिला |
| | 17 लसुडियाहातु | अनारक्षित | | 49 पोलाखाल | अनारक्षित महिला |
| | 18 अरलावदा | अनारक्षित महिला | | 50 उदयनगर | अ.ज.जा. |
| | | | | 51 रामपुरापटपडी | अ.ज.जा. |
| | | | | 52 हिरापुर | अ.ज.जा. महिला |
| | | | | 53 महीगांव | अ.ज.जा. महिला |
| | | | | 54 कनाड | अ.जा. |
| | | | | 55 पीपरी | अ.ज.जा. |
| | | | | 56 निमनपुर | अ.जा. |

| (1) | (2) | (3) | |
|-------|-----|---------------|-----------------|
| बागली | 57 | पोटला | अ.ज.जा. महिला |
| | 58 | पारसपीपली | अ.ज.जा. महिला |
| | 59 | रोजडी | अ.जा. |
| | 60 | शिवपुरमुण्डला | अनारक्षित |
| | 61 | हैदरपुर | अनारक्षित महिला |
| | 62 | सेमलीबुजुर्ग | अ.जा. |
| | 63 | मेंडिया | अनारक्षित |
| | 64 | आमलाताज | अनारक्षित |
| | 65 | फांगटी | अनारक्षित |
| | 66 | नानूखेडा | अनारक्षित |
| | 67 | खोखरिया | अ.ज.जा. महिला |
| | 68 | गोला | अ. जा. महिला |
| | 69 | धिंगरखेडा | अनारक्षित महिला |
| | 70 | भिलआमला | अनारक्षित |
| | 71 | खजुरियाबीना | अ.ज.जा. महिला |
| | 72 | पितावली | अ. जा. महिला |
| | 73 | लिम्बोदा | अनारक्षित महिला |
| | 74 | मनासा | अनारक्षित महिला |
| | 75 | वावल्या | अ.ज.जा. |
| | 76 | सादीपुरा | अनारक्षित |
| | 77 | बरखेडासोमा | अ.ज.जा. |
| | 78 | बैहरी | अनारक्षित |
| | 79 | लखवाडा | अनारक्षित |
| | 80 | बरझाई | अ.जा. महिला |
| | 81 | जटाशंकर | अनारक्षित महिला |
| | 82 | सेवनियाखुर्द | अ.ज.जा. महिला |
| | 83 | अम्बापानी | अनारक्षित |
| | 84 | बोरपडाव | अ.ज.जा. |
| | 85 | पोस्तीपुरा | अनारक्षित महिला |
| | 86 | बोरखाल्या | अ. जा. |
| | 87 | रूपलीपुरा | अनारक्षित |
| | 88 | भिकुपुरा | अ.जा. |
| | 89 | निमखेडा | अनारक्षित महिला |
| | 90 | पोलाय | अनारक्षित महिला |
| | 91 | बेडामउ | अनारक्षित महिला |
| | 92 | चापडा | अनारक्षित |
| | 93 | अमरपुरा | अनारक्षित |
| | 94 | आवल्दा | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) | |
|-------|-----|--------------|-----------------|
| बागली | 95 | चारिया | अ.ज.जा. महिला |
| | 96 | डांगराखेडा | अ.ज.जा. महिला |
| | 97 | किशनगढ़ | अनारक्षित महिला |
| | 98 | पीपलपाटी | अनारक्षित |
| | 99 | मगरादेह | अ.ज.जा. |
| | 100 | पटाडीपाला | अनारक्षित |
| | 101 | सिवनपानी | अ.ज.जा. महिला |
| | 102 | इमलीपुरा | अ.ज.जा. महिला |
| | 103 | देवनालिया | अ.ज.जा. महिला |
| | 104 | श्यामपुरा | अ.जा. |
| | 105 | पाण्डुतालाब | अ.ज.जा. महिला |
| | 106 | सीतापुरी | अ.जा. महिला |
| | 107 | आनन्दनगर | अ.ज.जा. |
| | 108 | बिसाली | अ.जा. |
| | 109 | धारडी | अ.ज.जा. महिला |
| | 110 | देवझीरी | अनारक्षित |
| | 111 | रतनपुर | अ.ज.जा. |
| | 112 | गुराडदा | अ.ज.जा. महिला |
| | 113 | बावडीखेडा | अ.ज.जा. महिला |
| | 114 | मिर्जापुर | अ.ज.जा. |
| | 115 | पीपल्यालोहार | अनारक्षित |
| | 116 | नयापुरा | अनारक्षित महिला |
| | 117 | मानसिंगपुरा | अ.ज.जा. |
| | 118 | रातातलाई | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11445-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1993 के नियम 7 के तहत ग्राम पंचायत सरपंच पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| जनपद | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| कन्नौद | 1 खैरी | अनुसूचित जनजाति महिला |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|--------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| कन्नौद | 2 पानीगांव | अनुसूचित जनजाति महिला | कन्नौद | 40 बधावा | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 3 बावडीखेड़ा | अनुसूचित जाति | | 41 हीरापुर | अनुसूचित जनजाति |
| | 4 थूरिया | अनारक्षित महिला | | 42 डेहरी | अनुसूचित जनजाति |
| | 5 किलोदा बी | अनुसूचित जनजाति | | 43 भायली | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 6 जागठा | अनुसूचित जनजाति महिला | | 44 गोदना | अनारक्षित |
| | 7 सिया | अनुसूचित जनजाति महिला | | 45 जिनवानी | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 8 कुसमानिया | अनुसूचित जनजाति | | 46 जानसूर | अनुसूचित जनजाति |
| | 9 भिलाई | अनारक्षित | | 47 नयापुरा | अनुसूचित जाति |
| | 10 नांदोन | अनुसूचित जनजाति महिला | | 48 लेहकी | अनुसूचित जनजाति |
| | 11 काटकूट | अनुसूचित जाति महिला | | 49 मोहाईजागीर | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 12 शेरगोना | अनुसूचित जनजाति | | 50 डेहरिया | अनारक्षित महिला |
| | 13 पिपल्दा | अनारक्षित महिला | | 51 बामनीखुर्द | अनारक्षित |
| | 14 हतलाय | अनारक्षित महिला | | 52 बुरूट | अनारक्षित महिला |
| | 15 सोनखेड़ी | अनारक्षित | | 53 कोथमीर | अनारक्षित महिला |
| | 16 अड्डानिया | अनारक्षित महिला | | 54 पिपलकोटा | अनुसूचित जाति महिला |
| | 17 बागनखेड़ा | अनारक्षित | | 55 गडीझाबरिया | अनुसूचित जाति महिला |
| | 18 कलंवार | अनुसूचित जनजाति महिला | | 56 पांगरी | अनारक्षित महिला |
| | 19 महुडिया | अनुसूचित जनजाति | | 57 बामनीबुजुर्ग | अनारक्षित महिला |
| | 20 बिजवाड़ | अनुसूचित जाति महिला | | 58 रहमानपुरा | अनारक्षित |
| | 21 हतनोरी | अनुसूचित जनजाति महिला | | 59 पलासी | अनारक्षित महिला |
| | 22 बोरानी | अनुसूचित जनजाति | | 60 सलामतपुरा | अनारक्षित महिला |
| | 23 सुन्देल | अनारक्षित | | 61 बैरागढ़ा | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 24 गुडवेल | अनुसूचित जनजाति महिला | | 62 इकलेरा | अनारक्षित |
| | 25 डोकाकुई | अनारक्षित महिला | | 63 बेडगांव | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 26 रतवाय | अनारक्षित महिला | | 64 खल | अनारक्षित |
| | 27 चपलासा | अनुसूचित जनजाति | | 65 डाबरीबुजुर्ग | अनुसूचित जाति |
| | 28 रायपुरा | अनारक्षित महिला | | 66 बडौदामाफी | अनुसूचित जाति |
| | 29 अम्बाड़ा | अनारक्षित | | 67 बाल्या | अनुसूचित जनजाति |
| | 30 बहिरावद | अनुसूचित जनजाति | | 68 खिरौदा | अनारक्षित |
| | 31 ननासा | अनारक्षित | | 69 भण्डारिया | अनुसूचित जाति महिला |
| | 32 सुरानी | अनुसूचित जनजाति महिला | | 70 टिपरास | अनारक्षित |
| | 33 पिपलानी | अनारक्षित | | 71 बिचकुंआ | अनारक्षित |
| | 34 किलोदा पी | अनुसूचित जनजाति महिला | | 72 बडकनखारी | अनारक्षित |
| | 35 खारपा | अनारक्षित | | 73 गाडागांव | अनारक्षित महिला |
| | 36 डांगराखेड़ा | अनारक्षित | | 74 निमासा | अनारक्षित |
| | 37 कोठडी | अनारक्षित महिला | | 75 सिन्द्राणी | अनुसूचित जनजाति |
| | 38 भैसून | अनुसूचित जनजाति | | 76 सुरमन्या | अनारक्षित महिला |
| | 39 पांगरा | अनुसूचित जनजाति | | 77 सिंगलादेह | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|--------|---------------|-----------------------|
| कन्नौद | 78 बाईजगवाड़ा | अनारक्षित महिला |
| | 79 गोलागुठान | अनुसूचित जाति महिला |
| | 80 नामनपुर | अनारक्षित महिला |
| | 81 धांसड़ | अनारक्षित |
| | 82 भामर | अनारक्षित महिला |
| | 83 पोखरखुर्द | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | 84 निमलाय | अनुसूचित जाति |
| | 85 खारिया | अनुसूचित जनजाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11445-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच पद का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | औंकारा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 2 | पटरानी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 3 | मचवास | पिछड़ा वर्ग |
| 4 | पलासी | अनारक्षित |
| 5 | निवारदी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 6 | सागोन्या | अ.ज.जा. महिला |
| 7 | ककडदी | अनारक्षित महिला |
| 8 | विक्रमपुर | अ.ज.जा. महिला |
| 9 | आमला | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 10 | बंडी | अ.ज.जा. |
| 11 | अमेली | अ.ज.जा. |
| 12 | सुलगांव | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 13 | किशनपुर | अ.ज.जा. |
| 14 | लिलि | अ.जा. |
| 15 | ओलबा | अ.जा. |
| 16 | सुकरास | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---------------|-------------------|
| 17 | सोमगांव | पिछड़ा वर्ग |
| 18 | सुकेडी | अनारक्षित महिला |
| 19 | पुरोनी | अनारक्षित |
| 20 | जियागांव | पिछड़ा वर्ग |
| 21 | देवला | अ.ज.जा. महिला |
| 22 | बचखाल | अनारक्षित महिला |
| 23 | खारदा | अनारक्षित |
| 24 | खल | अनारक्षित |
| 25 | दीपगांव | अ.जा. |
| 26 | कांकरिया | अ.ज.जा. महिला |
| 27 | गुजरगांव | अनारक्षित |
| 28 | बडदा | अ.ज.जा. महिला |
| 29 | तिवडीया | अ.ज.जा. महिला |
| 30 | सन्नौद | अनारक्षित महिला |
| 31 | रिछी | अनारक्षित |
| 32 | चंदवाना | अ.जा. |
| 33 | डिडाली | अ.ज.जा. |
| 34 | बरवाई | अनारक्षित |
| 35 | कवलासा | अनारक्षित |
| 36 | भटासा | पिछड़ा वर्ग |
| 37 | पाडियादेह | पिछड़ा वर्ग |
| 38 | साक्ट्या | अ.ज.जा. |
| 39 | बरछाबुजुर्ग | अनारक्षित |
| 40 | संदलपुर | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 41 | पिपल्यानानकार | अनारक्षित महिला |
| 42 | बीजापुर | अनारक्षित महिला |
| 43 | इकलेरा | अ.जा. महिला |
| 44 | खिडकिया | अनारक्षित महिला |
| 45 | कोलारी | अ.जा. महिला |
| 46 | नवलगांव | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 47 | सोनगांव | पिछड़ा वर्ग |
| 48 | बुराडा | अ.जा. महिला |
| 49 | जामनेर | अनारक्षित |
| 50 | लवरास | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 51 | सवासडा | अ.ज.जा. |
| 52 | भीलखेडी | अ.ज.जा. महिला |
| 53 | अजनास | अ.जा. महिला |
| 54 | मालसागोदा | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|------------|-------------------|
| 55 | उमरिया | अनारक्षित महिला |
| 56 | मेलपिपल्या | अ.ज.जा. महिला |
| 57 | मीर्जापुर | पिछड़ा वर्ग |
| 58 | कांजीपुरा | अ.ज.जा. महिला |
| 59 | कणाबुजुर्ग | अनारक्षित महिला |
| 60 | खुडगांव | अ.ज.जा. महिला |
| 61 | राजौर | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 62 | नेमावर | पिछड़ा वर्ग |
| 63 | बिजलगांव | पिछड़ा वर्ग |
| 64 | लकडानी | अ.जा. महिला |
| 65 | गनौरा | अ.ज.जा. |
| 66 | हरणगांव | अ.ज.जा. महिला |
| 67 | मनौरा | अनारक्षित महिला |
| 68 | धुधियाखेडी | अ.जा. |
| 69 | बागदा | अनारक्षित महिला |
| 70 | धायली | अनारक्षित |
| 71 | दुदवास | अनारक्षित |
| 72 | बजवाडा | अ.ज.जा. |
| 73 | मुरझाल | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जवासिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| जवासिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|-----|-----------------|
| जवासिया | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत दत्तोतर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| दत्तोतर | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अ.जा. |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **पंथ मुण्डला** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पंथ मुण्डला | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **भैसूनी (वि.मण्डी)** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| भैसूनी (वि.मण्डी) | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|-----|-------------------|
| भैसूनी (वि.मण्डी) | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **बरखेड़ा कायम** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बरखेड़ा कायम | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|-----|-----------------|
| बरखेड़ा कायम | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लसुड़िया सोण्डा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| लसुड़िया सोण्डा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सोण्डा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सोण्डा | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रालामण्डल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| रालामण्डल | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------|
| रालामण्डल | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अकाल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| अकाल्या | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कवड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| कवड़ी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आगरोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| आगरोद | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-----------------|
| आगरोद | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अ.जा. |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत उपड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| उपड़ी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बिजेपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बिजेपुर | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बगाना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बगाना | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-------------------|
| बगाना | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत टिगरिया सॉचा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| टिगरिया सॉचा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पटलावदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पटलावदा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लिम्बोदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| लिम्बोदा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|-----|-------------------|
| लिम्बोदा | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अजीजखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| अजीजखेड़ी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत निपान्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| निपान्या | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मेढकीधाकड़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| मेढकीधाकड़ | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|-----|-------------------|
| मेढकीधाकड़ | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत छोटा मालसापुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|----------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| छोटा मालसापुरा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-----------------|
| छोटा मालसापुरा | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|--------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| सिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बांगर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बांगर | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लसुड़िया छत्रधार के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| लसुड़िया छत्रधार | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|------------------|-----|-------------------|
| लसुड़िया छत्रधार | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444 पंचा.-निर्वा.-आरक्षण 2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सिंगावदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सिंगावदा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अमरपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| अमरपुरा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आनन्दपुर डुंगरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| आनन्दपुर डुंगरिया | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|-----|-------------------|
| आनन्दपुर डुंगरिया | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत देवर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| देवर | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अ.जा. महिला |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बैरागढ़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बैरागढ़ | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खटाम्बा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| खटाम्बा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|-----|-------------------|
| खटाम्बा | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जामगोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| जामगोद | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|--------|-----|-------------------|
| जामगोद | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अ.जा. महिला |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पुवाल्डी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पुवाल्डी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लौहारी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| लौहारी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत चन्दाना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| चन्दाना | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ.ज.जा. |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|-----|-----------------|
| चन्दाना | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गदईशापिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| गदईशापिपल्या | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लौहार पिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| लौहार पिपल्या | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सुकल्या (क्षिप्रा) के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सुकल्या (क्षिप्रा) | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------------|-----|-------------------|
| सुकल्या (क्षिप्रा) | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सुनवानी महाकाल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सुनवानी महाकाल | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-------------------|
| सुनवानी महाकाल | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत राजोदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| राजोदा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बालोदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बालोदा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बरखेड़ा कोतापाई के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बरखेड़ा कोतापाई | 1 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------------|-----|-------------------|
| बरखेड़ा कोतापाई | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गुजर बापच्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| गुजर बापच्या | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|-----|-----------------|
| गुजर बापच्या | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कानकुण्ड के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| कानकुण्ड | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आँक्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| आँक्या | 1 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|--------|-----|-------------------|
| आँक्या | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आवल्या पिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| आवल्या पिपल्या | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-------------------|
| आवल्या पिपल्या | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खोकरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| खोकरिया | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जलोदिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| जलोदिया | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बड़ी चुरलाई के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बड़ी चुरलाई | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-------|-------------------|
| बड़ी चुरलाई | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| 20 | अ.जा. | |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश, पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कुमारिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| कुमारिया | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009.

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत टिगरिया छोटा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| टिगरिया छोटा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत छापरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| छापरी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-------------------|
| छापरी | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भड़ापिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| भड़ापिपल्या | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बांगरदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बांगरदा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गुराड़िया भील के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| गुराड़िया भील | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|---------------|-----|-------------------|
| गुराड़िया भील | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भानगढ़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| भानगढ़ | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सिरोल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सिरोल्या | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत नापाखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| नापाखेड़ी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| नापाखेड़ी | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मोरूखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| मोरूखेड़ी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| भाटखेड़ी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | 14 | अ.ज.जा. |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पत्थर गुराड़िया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पत्थर गुराड़िया | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------------|-----|-----------------|
| पत्थर गुराड़िया | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत टिगरिया गोगा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| टिगरिया गोगा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कैलोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| कैलोद | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश, पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सदाशिवपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सदाशिवपुरा | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|-----|-------------------|
| सदाशिवपुरा | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बरोठा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बरोठा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-----------------|
| बरोठा | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत नारियाखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| नारियाखेड़ा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ.ज.जा. |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सुतारखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सुतारखेड़ा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खतेड़िया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| खतेड़िया | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|-----|-----------------|
| खतेड़िया | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सन्नौड़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सन्नौड़ | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पटाड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पटाड़ी | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पर्वतपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पर्वतपुरा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| पर्वतपुरा | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत दखनाखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| दखनाखेड़ी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अ.जा. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-----------------|
| दखनाखेड़ी | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत चौबापिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| चौबापिपल्या | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सारोल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सारोल | 1 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-------------------|
| सारोल | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बराय के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बराय | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मिर्जापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| मिर्जापुर | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बारोली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| बारोली | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|--------|-----|-------------------|
| बारोली | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अखेपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| अखेपुर | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अकबरपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| अकबरपुर | 1 | अजा महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अजा |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अजजा महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अजजा महिला |
| | 10 | अजजा |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अजजा |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत राधोगढ़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| राधोगढ़ | 1 | अजा महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------------|
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अजा |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मुण्डाहेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| मुण्डाहेड़ा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अजा महिला |
| | 3 | अजा |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अजा |
| | 8 | अजा महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अजा |
| | 11 | अजा महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अजा महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सुनवानी गोपाल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सुनवानी गोपाल | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अजा महिला |
| | 9 | अजा |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अजा महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अजा महिला |
| | 16 | अजा |
| | 17 | अजा महिला |
| | 18 | अजा |
| | 19 | अजा महिला |
| | 20 | अजा |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत साबूखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| साबूखेड़ी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अजा महिला |
| | 3 | अजा महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अजा |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| साबूखेड़ी | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अजा महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रामगढ़ जंगली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| रामगढ़ जंगली | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अजा महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अजा महिला |
| | 10 | अजा |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मांगरोला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| मांगरोला | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अजा महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अजा |
| | 8 | अजा महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------|
| | 9 | अज्ञा |
| | 10 | अज्ञा |
| | 11 | अज्ञा महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अज्ञा महिला |
| | 15 | अज्ञा |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| खजूरिया जागीर | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आंट के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| आंट | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अचलूखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| अचलूखेड़ी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत नागूखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| नागूखेड़ी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| रूपाखेड़ी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------------|
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत टिमरनी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| टिमरनी | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **सुनवानी कराड़** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**देवास**

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सुनवानी कराड़ | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **पटाड़ा** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**देवास**

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| पटाड़ा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |

(1) (2) (3)

9 अनारक्षित महिला
10 अनारक्षित
11 अनारक्षित
12 अ.ज.जा. महिला

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **टिनोन्या** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**देवास**

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| टिनोन्या | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| 12 | अनारक्षित | |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **सुतली** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**देवास**

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सुतली | 1 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-------------------|
| सुतली | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत हैबतपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| हैबतपुरा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सिरोंज के वार्डों

का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—देवास

| ग्राम पंचायत (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| सिरोंज | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कराडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकरखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. कराडिया | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पान्दा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2. पान्दा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत धतुरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 3. धतुरिया | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----------|
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत चिडावद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 4. चिडावद | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **भेरवाखेडी** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**टोंकखुर्द**

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|--------------|----|-------------------|
| 5. भेरवाखेडी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **हरनावदा** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**टोंकखुर्द**

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 6. हरनावदा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | |
|----|-------------------|
| 8 | अ.जा. महिला |
| 9 | अनारक्षित |
| 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 11 | अनारक्षित |
| 12 | अ.जा. |
| 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **राबडिया** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**टोंकखुर्द**

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|------------|----|-------------------|
| 7. राबडिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत फतेपुरखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:--

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 8. फतेपुरखेडा | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सेकली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:--

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 9. सेकली | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रणायलकलां के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:--

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 10. रणायलकलां | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत विजयगढमुरम्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:--

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 11. विजयगढमुरम्या | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|-----|-------------------|
| 11. विजयगढमुरम्या | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जनोलीखुर्द के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 12. जनोलीखुर्द | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत डिंगरोदा

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 13. डिंगरोदा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत दोन्ताजागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 14. दोन्ताजागीर | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-----|-------------------|
| दोन्ताजागीर | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आलरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 15. आलरी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खरेली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 16. खरेली | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पीपल्यासडक के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 17. पीपल्यासडक | 1 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-------------------|
| 17. पीपल्यासडक | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अ.जा. |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पाडल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 18. पाडल्या | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-----|-------------------|
| 18. पाडल्या | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अ.जा. महिला |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बरखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 19. बरखेडा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जसम्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 20. जसम्या | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रतनखेडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 21. रतनखेडी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-----|-------------------|
| 21. रतनखेडी | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रन्धनखेडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 22. रन्धनखेडी | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत टोंककलां के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 23. टोंककलां | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कलमा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 24. कलमा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|-----|-------------------|
| 24. कलमा | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत नावदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 25. नावदा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-------------------|
| नावदा | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत नान्देल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 26. नान्देल | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ.जा. |
| | 19 | अ.जा. महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कन्हेरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 27. कन्हेरिया | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत फतनपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 28. फतनपुर | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|--------|-----|-------------------|
| फतनपुर | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पोलाय के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|-----------|----|-------------------|
| 29. पोलाय | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत आगरोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|-----------|----|-------------------|
| 30. आगरोद | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गोरवा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 31. गोरवा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| 31. गोरवा | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मूडलादेव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 32. मूडलादेव | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अमोना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 33. अमोना | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.जा. महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खेडामाधोपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 34. खेडामाधोपुर | 1 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------------|-----|-------------------|
| 34. खेडामाधोपुर | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लसूडियाकुलमी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 35. लसूडियाकुलमी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|-----|-------------------|
| लसूडियाकुलमी | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सेडू के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 36. सेडू | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बरदू के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 37. बरदू | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जमोडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 38. जमोडी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जमोनिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 39. जमोनिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गुराडियासुरदास के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 40. गुराडियासुरदास | 1 | अ.जा. |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-------------------|
| गुराडियासुरदास | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भीलखेडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 41. भीलखेडी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बालोन के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 42. बालोन | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लसूडियाब्राहमण के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

43. लसूडियाब्राहमण 1 अनारक्षित

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-------------------|
| लसूडियाब्राहमण | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मूडलादांगी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 44. मूडलादांगी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत किन्दूरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 45. किन्दूरिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत इकलेरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 46. इकलेरा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|-----|-------------------|
| 46. इकलेरा | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अ.जा. महिला |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कल्लूखेडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|---------------|----|-------------------|
| 47. कल्लूखेडी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खेडीराजपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| 48. खेडीराजपुरा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भूतियाबुजुर्ग के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 49. भूतियाबुजुर्ग | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------------|-----|-------------------|
| 49. भूतियाबुजुर्ग | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सालमखेडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 50. सालमखेडी | 1 | अ.जा. |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत चौबाराधीरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 51. चौबाराधीरा | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जीवाजीगढ़ के

वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 52. जीवाजीगढ़ | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत देवगुराडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 53. देवगुराडिया | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------------|-----|-------------------|
| 53. देवगुराडिया | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत देवली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्र. (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 54. देवली | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| 54. देवली | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अ.जा. |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जिरवाय के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 55. जिरवाय | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पान्डी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 56. पान्डी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत संवरसी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 57. संवरसी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|------------|-----|-------------------|
| 57. संवरसी | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बुदासा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|------------|----|-------------------|
| 58. बुदासा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अ.जा. |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत नागपचलाना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—टोंकखुर्द

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|---------------|----|-------------------|
| 59. नागपचलाना | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पीरपाडल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | |
|----|------------|---|-----------------|
| 1. | पीरपाडल्या | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|-----|---------------------|
| 1. | पीरपाडल्या | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **मुरम्या** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**सोनकच्छ**

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2 | मुरम्या | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13 सहपठित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **घट्टियाकला** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**सोनकच्छ**

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | घट्टियाकला | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **घिचलाय** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**सोनकच्छ**

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | घिचलाय | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | अनुसूचित जाति |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-----------------------|
| 4 | घिचलाय | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनुसूचित जाति |
| | | 19 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 20 | अनुसूचित जनजाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत धंधेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5. | धंधेड़ा | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनुसूचित जाति |
| | | 18 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत निपानिया हुर-हुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6. | निपानिया हुर-हुर | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लकुमड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7 | लकुमड़ी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----|---------------------|
| 7 | लकुमड़ी | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खुटखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8 | खुटखेड़ा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जोलाय के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9 | जोलाय | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पटाड़िया नजदीक के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10 | पटाड़िया नजदीक | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------------|-----|-------------------|
| 10 | पटाड़िया नजदीक | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कुमारिया बनवीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 11 | कुमारिया बनवीर | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खेरिया जागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 12 | खेरिया जागीर | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | अनुसूचित जाति |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत टुंगनी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 13 | टुंगनी | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|---------------------|
| 13 | टुंगनी | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पटाड़ियाताज के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 14 | पटाड़ियाताज | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गढ़खजुरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15 | गढ़खजुरिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रजापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 16 | रजापुर | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|---------------------|
| 16 | रजापुर | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जामगोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 17 | जामगोद | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|---------------------|
| 17 | जामगोद | 18 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 19 | अनुसूचित जाति |
| | | 20 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत तालोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 18 | तालोद | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 15 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | अनुसूचित जनजाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन

नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत छायानमैना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 19 | छायानमैना | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत गंधर्वपुरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 20 | गंधर्वपुरी | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|-----|-------------------|
| 20 | गंधर्वपुरी | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत काछियागुराड़िया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | काछियागुराड़िया | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत धतुरियाराम के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 22 | धतुरियाराम | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन एवं ग्राम स्वराज नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खजुरियाकंका के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 23 | खजुरियाकंका | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------|-----|-----------------------|
| 23 | खजुरियाकंका | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 17 | अनुसूचित जाति |
| | | 18 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत दुदलाई के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 24 | दुदलाई | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश, पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **जामोदी** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**सोनकच्छ**

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 25 | जामोदी | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **हरनावदा** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**सोनकच्छ**

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 26 | हरनावदा | 1 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----|---------------------|
| 26 | हरनावदा | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत **बैराखेड़ी** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**सोनकच्छ**

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 27 | बैराखेड़ी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लोंदिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 28 | लोंदिया | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कचनारिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 29 | कचनारिया | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|-----|-----------------|
| 29 | कचनारिया | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत देहरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 30 | देहरी | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत एनाबाद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 31 | एनाबाद | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-----------------------|
| 31 | एनाबाद | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनुसूचित जाति |
| | | 20 | अनुसूचित जनजाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भूतियारखुर्द के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 32 | भूतियारखुर्द | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बीसाखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 33 | बीसाखेड़ी | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मनासा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 34 | मनासा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|---------------------|
| 34 | मनासा | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कुमारियाराव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 35 | कुमारियाराव | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | अनुसूचित जाति |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सादीखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 36 | सादीखेड़ा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत ढाबला जागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 37 | ढाबला जागीर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------|-----|---------------------|
| 37 | ढाबला जागीर | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कुलाला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 38 | कुलाला | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भलाईखुर्द के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 39 | भलाईखुर्द | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 19 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बोलासा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40 | बोलासा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|---------------------|
| 40 | बोलासा | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत कांकड़दा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 41 | कांकड़दा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत खोनपिरपिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 42 | खोनपिरपिपल्या | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनुसूचित जाति |
| | | 16 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बुधनगांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 43 | बुधनगांव | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|-----|-------------------|
| 43 | बुधनगांव | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत फावड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 44 | फावड़ा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 19 | अनुसूचित जाति |
| | | 20 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सरसौदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 45 | सरसौदा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत डकाच्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 46 | डकाच्या | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----|---------------------|
| 46 | डकाच्या | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पांदा जागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 47 | पांदा जागीर | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------|-----|---------------------|
| 47 | पांदा जागीर | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनुसूचित जाति |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पोलाय जागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 48 | पोलाय जागीर | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |
| | | 17 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 18 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत बावई के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 49 | बावई | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनुसूचित जाति |
| | | 16 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 17 | अनुसूचित जाति |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत सांवेर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 50 | सांवेर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|---------------------|
| 50 | सांवेर | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत औड़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 51 | औड़ | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनुसूचित जाति |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------------|
| 51 | औड़ | 13 | अनुसूचित जाति |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |
| | | 15 | अनुसूचित जाति |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनुसूचित जाति |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत रोलूपिपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 52 | रोलूपिपल्या | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जलेरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 53 | जलेरिया | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत भागसरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 54 | भागसरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|---------------------|
| 54 | भागसरा | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति |
| | | 8 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जगदीशपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 55 | जगदीशपुर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |
| | | 15 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पिपल्याबक्सू के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 56 | पिपल्याबक्सू | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनुसूचित जाति |
| | | 12 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 13 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत घट्टियाभाना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 57 | घट्टियाभाना | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------|-----|---------------------|
| 57 | घट्टियाभाना | 4 | अनुसूचित जाति |
| | | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत दौलतपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 58 | दौलतपुर | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति |
| | | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 14 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 15 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 16 | अनुसूचित जाति |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अगेरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 59 | अगेरा | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनुसूचित जाति |
| | | 10 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 11 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत पारदिखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 60 | पारदिखेड़ा | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|-----|---------------------|
| 60 | पारदिखेड़ा | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनुसूचित जाति |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत चौबारा जागीर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 61 | जौबारा जागीर | 1 | अनुसूचित जाति |
| | | 2 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | अनुसूचित जनजाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत मुण्डलाआना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 62 | मुण्डलाआना | 1 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 2 | अनुसूचित जाति |
| | | 3 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत चांदाखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 63 | चांदाखेड़ी | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|-----|-----------------------|
| 63 | चांदाखेड़ी | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनुसूचित जनजाति महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | अनुसूचित जाति |
| | | 15 | अनुसूचित जनजाति |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनुसूचित जाति महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जामली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 64 | जामली | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अनुसूचित जाति |
| | | 6 | अनुसूचित जाति |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 12 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत जलोदिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 65 | जलोदिया | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत लालाखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—सोनकच्छ

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 66 | लालाखेड़ी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------|-----|---------------------|
| 66 | लालाखेड़ी | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनुसूचित जाति महिला |
| | | 12 | अनुसूचित जाति |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (1) बोरखेड़ापूर्व्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | बोरखेड़ापूर्व्या | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

(2) घटियाग्यासुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2 | घटियाग्यासुर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (3) पौनासा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | पौनासा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-------------------|
| 3 | पौनासा | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (4) नेवरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | नेवरी | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अ. जा. |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ. जा. महिला |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (5) मानकुण्ड के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5 | मानकुण्ड | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. जा. |
| | | 19 | अ. जा. महिला |
| | | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (6) देवगढ़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6 | देवगढ़ | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अ. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|------------------|
| 6 | देवगढ़ | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 5 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 6 | पिछडा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | पिछडा वर्ग |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (7) बडियामाण्डू के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7 | बडियामाण्डू | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | पिछडा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------|-----|-----------------|
| 7 | बडियामाण्डू | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अ. जा. |
| | | 19 | पिछडा वर्ग |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (8) मनापीपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | मनापीपल्या | 1 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | पिछडा वर्ग |
| | | 5 | पिछडा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | अ. जा. |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | पिछडा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (9) हाथीगुराडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9 | हाथीगुराडिया | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (10) टप्पासुकल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10 | टप्पासुकल्या | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------------|-----|-------------------|
| 10 | टप्पासुकल्या | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | अ. जा. |
| | | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (11) बारोली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 11 | बारोली | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (12) कांझर

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 12 | कांझर | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अ. जा. |
| | | 15 | अ. जा. |
| | | 16 | अ. जा. |
| | | 17 | अ. जा. महिला |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (13) कवडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 13 | कवडिया | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-------------------|
| 13 | कवडिया | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (14) डिगोद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 14 | डिगोद | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (15) गुसठ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 15 | गुसठ | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अ. जा. |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (16) बामनी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 16 | बामनी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|-------------------|
| 16 | बामनी | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (17) लसूडियाहातु के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 17 | लसूडियाहातु | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अ. जा. महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (18) अरलावदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 18 | अरलावदा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (19) महुखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 19 | महुखेड़ा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|-----|-------------------|
| 19 | महुखेड़ा | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अ. जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (20) देहरियासाहू के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 20 | देहरियासाहू | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------|-----|-------------------|
| 20 | देहरियासाहू | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (21) चांसिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|------------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | |
|----|---------|----|-------------------|
| 21 | चांसिया | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ. जा. |
| | | 17 | अ. जा. महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (22)

झिकडाखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|------------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 22 | झिकडाखेडा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (23) भमौरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ. क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|------------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 23 | भमौरी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|-------------------|
| 23 | भगौरी | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (24) मुकुन्दगढ़ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 24 | मुकुन्दगढ़ | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (25)

धावडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 25 | धावडिया | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (26) इकलेरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 26 | इकलेरा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-----------------|
| 26 | इकलेरा | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (27) बिज्जूखेड़ा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 27 | बिज्जूखेड़ा | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (28) गुवाडी

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 28 | गुवाडी | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ.-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (29) चारबर्डी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 29 | चारबर्डी | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (30) करोंदिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 30 | करोंदिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (31) छतरपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 31 | छतरपुरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------|-----|-------------------|
| 31 | छतरपुरा | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| 20 | अनारक्षित | | |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (32) पुंजापुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 32 | पुंजापुरा | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 17 | अ. जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (33) पलासी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 33 | पलासी | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

(34) चंदुपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 34 | चंदुपुरा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (35) करडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 35 | करडी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (36) सोबल्यापुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 36 | सोबल्यापुरा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (37) बिलावली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 37 | बिलावली | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. ज. महिला |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (38) इस्मोईलखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 38 | इस्मोईलखेड़ी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (39) सामगी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 39 | सामगी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (40) कमलापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40 | कमलापुर | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | अ. जा. जा. महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (41) गोपीपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 41 | गोपीपुर | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (42) खेडाखाल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 42 | खेडाखाल | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अ. ज. जा. |
| | | 17 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (43) आगुली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 43 | आगुली | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (44) पिपल्याजॉन के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 44 | पिपल्याजॉन | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (45) मातमौर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 45 | मातमौर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अ. जा. |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (46) गुराडियाकला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 46 | गुराडियाकला | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009. मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (47) पानकुआ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 47 | पानकुआ | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (48) आगराखुर्द के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 48 | आगराखुर्द | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------|
| | | 16 | अ. ज. जा. |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (49) पोलाखाल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 49 | पोलाखाल | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

(50) उदयनगर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 50 | उदयनगर | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (51) रामपुरापटपडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 51 | रामपुरापटपडी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (52) हिरापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 52 | हिरापुर | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (53) महीगांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 53 | महीगांव | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (54) कनाड के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 54 | कनाड | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (55) पीपरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 55 | पीपरी | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | अ. जा. |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अ. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (56) निमनपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 56 | निमनपुर | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. |
| | | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. |
| | | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (57) पोटला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 57 | पोटला | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (58) पारसपीपली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 58 | पारसपीपली | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11446-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (59) रोजडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 59 | रोजडी | 1 | अ.जा. महिला |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अ.जा. |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (60) शिवपुरमुण्डला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार

प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 60 | शिवपुरमुण्डला | 1 | अ.जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (61) हैदरपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 61 | हैदरपुर | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ.जा. महिला |
| | | 8 | अ.जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (62) सेमलीबुजुर्ग के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 62 | सेमलीबुजुर्ग | 1 | अ.जा. |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अ.जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ.जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (63) मेंडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 63 | मेंडिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अ.जा. |
| | | 6 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 7 | अ.जा. महिला |
| | | 8 | अ.जा. |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (64) आमलाताज के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 64 | आमलाताज | 1 | अ.जा. महिला |
| | | 2 | अ.जा. |
| | | 3 | अ.जा. महिला |
| | | 4 | अ.जा. |
| | | 5 | अ.जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ.जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (65) फांगटी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 65 | फांगटी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.जा. महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (66) नानूखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 66 | नानूखेडा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अ.जा. |
| | | 15 | अ.जा. महिला |
| | | 16 | अ.जा. |
| | | 17 | अ.जा. |
| | | 18 | अ.जा. महिला |
| | | 19 | अ.जा. महिला |
| | | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (67) खोखरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 67 | खोखरिया | 1 | अ.जा. महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (68) गोला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 68 | गोला | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अ.जा. महिला |
| | | 7 | अ.जा. |
| | | 8 | अ.जा. महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (69) धिंगरखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 69 | धिंगरखेडा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अ.जा. महिला |
| | | 6 | अ.जा. महिला |
| | | 7 | अ.जा. |
| | | 8 | अ.जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (70) भीलआमला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 70 | भीलआमला | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत

निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (71) खजूरियाबीना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 71 | खजूरियाबीना | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.जा. |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ.जा. |
| | | 13 | अ.जा. महिला |
| | | 14 | अ.जा. महिला |
| | | 15 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (72) पितावली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 72 | पितावली | 1 | अ.जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 8 | अ.जा. |
| | | 9 | अ.जा. |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (73) लिम्बोदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 73 | लिम्बोदा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अ.जा. महिला |
| | | 14 | अ.जा. |
| | | 15 | अ.जा. महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (74) मनासा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 74 | मनासा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 3 | अ.जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अ.जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ.जा. |
| | | 10 | अ.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (75) बावलया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 75 | बावलया | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ.जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (76) सादीपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 76 | सादीपुरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ.जा. |
| | | 7 | अ.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ.जा. महिला |
| | | 14 | अ.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अ.जा. |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (77) बरखेडासोमा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 77 | बरखेडासौमा | 1 | अ.जा. महिला |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.जा. |
| | | 5 | अ.जा. |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ.जा. |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ.जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (78) बैहरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 78 | बैहरी | 1 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ.जा. महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ.जा. |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अ.जा. महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (79) लखवाडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 79 | लखवाडा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अ.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (80) बरझाई के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 80 | बरझाई | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. |
| | | 15 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (81) जटाशंकर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 81 | जटाशंकर | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (82) सेवनियाखुर्द के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 82 | सेवनियाखुर्द | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. |
| | | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. |
| | | 18 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (83) अम्बापानी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 83 | अम्बापानी | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (84) बोरपडाव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 84 | बोरपडाव | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (85) पोस्तीपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 85 | पोस्तीपुरा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (86) बोरखाल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 86 | बोरखाल्या | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (87) रुपलीपुरा वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 87 | रुपलीपुरा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत

निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (88) भीकुपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 88 | भीकुपुरा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (89) निमखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 89 | निमखेडा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (90) पोलाय के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 90 | पोलाय | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 12 | अ.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (91) बेडामउ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित

किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 91 | बेडामउ | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ.जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (92) चापडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 92 | चापडा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अ.जा. |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अ.जा. |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 12 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-------------------|
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (93) अमरपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 93 | अमरपुरा | 1 | अ.जा. |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (94)

अवल्दा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 94 | अवल्दा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ.जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (95) चारिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 95 | चारिया | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अ.जा. |
| | | 4 | अ.जा. |
| | | 5 | अ.जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (96) डांगराखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 96 | डांगराखेडा | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 17 | अ.ज.जा. |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं

ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (97) किशनगढ के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 97 | किशनगढ | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (98) पीपलपाटी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 98 | पीपलपाटी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ.जा. महिला |
| | | 5 | अ.जा. महिला |
| | | 6 | अ.जा. |
| | | 7 | अ.जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 8 | अ.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (99) मगरादेह के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 99 | मगरादेह | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (100)

पटाडीपाडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 100 | पटाडीपाला | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (101) सिवनपानी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 101 | सीवनपानी | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (102) इमलीपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 102 | इमलीपुरा | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (103) देवनालिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 103 | देवनालिया | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (104) श्यामपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 104 | श्यामपुरा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (105) पाण्डुतालाब के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 105 | पाण्डुतालाब | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (106) सीतापुरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 106 | सीतापुरी | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (107) आनन्दनगर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 107 | आनन्दनगर | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (108)

बिसाली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 108 | बिसाली | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. |
| | | 18 | अ.ज.जा. |
| | | 19 | अ.ज.जा. |
| | | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (109)धारडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 109 | धारडी | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (110) देवझिरी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 110 | देवझिरी | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत,

(111) रतनपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 111 | रतनपुर | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ.जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ.जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (112) गुराडदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 112 | गुराडदा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (113) बावडीखेडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 113 | बावडीखेडा | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (114)

मिर्जापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्रमांक (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 114 | मिर्जापुर | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (115) पिपल्यालोहाड के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्रमांक (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 115 | पिपल्यालोहाड | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (116) नयापुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्रमांक (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 116 | नयापुरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ.जा. महिला |
| | | 3 | अ.जा. |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (117)

मानसिंगपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 117 | मानसिंगपुरा | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.जा. |
| | | 3 | अ.जा. महिला |
| | | 4 | अ.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-नि.अ.-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत, (118) रातातलाई के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—बागली

| अ.क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 118 | रातातलाई | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. |
| | | 16 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कनौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 01 खेरी | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | 4 | अ.ज.जा. |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | अ.ज.जा. |
| | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अ.ज.जा. |
| | 19 | अ.ज.जा. |
| | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 02 पानीगांव | 1 | अ.ज.जा. |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.ज.जा. |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ.ज.जा. |
| | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 03 बावडीखेडा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | अ.ज.जा. |
| | 13 | अ.जा. |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. |
| | 17 | अ.ज.जा. |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 04 थूरिया | 1 | अ.ज.जा. |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | 3 | अ.ज.जा. महिला | 11 | अ.ज.जा. | |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला | 12 | पिछड़ा वर्ग | |
| | 5 | अनारक्षित | 13 | अ.ज.जा. | |
| | 6 | अनारक्षित | 14 | अ.ज.जा. महिला | |
| | 7 | अनारक्षित महिला | 15 | अनारक्षित महिला | |
| | 8 | अनारक्षित | 16 | अ.ज.जा. महिला | |
| | 9 | अ.जा. | 17 | पिछड़ा वर्ग | |
| | 10 | अ.जा. महिला | 18 | अ.ज.जा. | |
| | 11 | अनारक्षित | 19 | अ.ज.जा. महिला | |
| | 12 | अ.ज.जा. | | | |
| | 13 | अ.ज.जा. महिला | | | |
| | 14 | अनारक्षित महिला | | | |
| | 15 | अ.ज.जा. | | | |
| | 16 | अ.ज.जा. | | | |
| | 17 | अ.जा. महिला | | | |
| | 18 | अनारक्षित महिला | | | |
| | 19 | अनारक्षित महिला | | | |
| | 20 | अ.ज.जा. महिला | | | |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 06 जागठा | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.ज.जा. |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 05 किलोदा बी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ.जा. |

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**कन्नौद**

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 07 सिया | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**कन्नौद**

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 08 कुसमानिया | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----------------|
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. |
| | 14 | अ.ज.जा. |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | अ.ज.जा. |
| | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**कन्नौद**

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 09 भिलाई | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अ.ज.जा. |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | अ.ज.जा. |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ.ज.जा. |
| | 18 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------|
| | 19 | अ.ज.जा. |
| | 20 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 नांदोन | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.ज.जा. |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.जा. |
| | 15 | अ.ज.जा. |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | अ.ज.जा. |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 11 काटकुट | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अ.ज.जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 12 शेरगुना | 1 | अ.ज.जा. |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अ.ज.जा. |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----------------|
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अ.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 13 पिपल्दा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अ.ज.जा. |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.ज.जा. |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ.ज.जा. |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | 17 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | अ.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 14 हतलाय | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 15 सोनखेड़ी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------------|
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. |
| | 17 | अ.जा. |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 16 अड्डानिया | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ.जा. |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 17 बागनखेडा | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अ.जा. |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 18 कलवार | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अ.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|-----|-----------------|
| 18 कलवार | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | अ.ज.जा. |
| | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 19 महुडिया | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ.ज.जा. |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अ.जा. |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अ.ज.जा. |
| | 19 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 बिजवाड | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. |
| | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अ.जा. महिला |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. |
| | 14 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 21 हतनोरी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|---------------|
| 21 हतनोरी | 5 | अ.ज.जा. |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अ.ज.जा. |
| | 13 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 22 बोरानी | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.ज.जा. |
| | 6 | अ.जा. महिला |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 23 सुन्देल | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.ज.जा. महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अ.ज.जा. |
| | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम (1) | वार्ड क्रमांक (2) | आरक्षण का प्रकार (3) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 24 गुडबैल | 1 | अ.जा. |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-----------------|
| 24 गुडबैल | 4 | अ.ज.जा. |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ.ज.जा. |
| | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | 15 | अ.जा. महिला |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कनौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 25 डोकाकुई | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----------------|
| | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ.ज.जा. |
| | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | 19 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कनौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 26 रतवाय | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 27 चपलासा | 1 | अ.जा. महिला- |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ.ज.जा. |
| | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009.

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 28 रायपुरा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------------|
| | 8 | अ.ज.जा. |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अ.जा. |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अ.जा. महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 29 अंबाडा | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.ज.जा. |
| | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | 15 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 30 बहिरावद | 1 | अ.जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ.ज.जा. |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ.जा. महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 31 ननासा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------------|
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ.जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.ज.जा. |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 32 सुरानी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ.ज.जा. |
| | 3 | अ.जा. महिला |
| | 4 | अ.ज.जा. |
| | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| 32 सुरानी | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अ.जा. महिला |
| | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 33 पिंपलानी | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | 3 | अ.ज.जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ.जा. |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 34 किलोदा पी | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | 2 | अ.ज.जा. |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ.जा. |
| | 7 | अ.जा. |
| | 8 | अ.जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 35 खारपा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-------------------|
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग |
| | 12 | अ.जा. महिला |
| | 13 | अ.जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 36 डांगराखेडा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ.जा. |
| | 9 | अ.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|---------------|
| | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा. आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 37 कोठडी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ.जा. |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ.ज.जा. |
| | 7 | अ.ज.जा. |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ.जा. महिला |
| | 10 | अ.जा. महिला |
| | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 38 | भैसून | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 39 | पांगरा | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. जा.. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40 | बधावा | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. |
| | | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|---------------|
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अ.ज.जा. |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 41 | हिरापुर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 17 | अ.ज.जा. |
| | | 18 | अ.ज.जा. |
| | | 19 | अ.ज.जा. |
| | | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 42 | डेहरी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 17 | अ.ज.जा. |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 43 | भायली | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अ.ज.जा. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 43 | भायली | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 44 | गोदना | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अ.ज.जा. |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. |
| | | 10 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 44 | गोदना | 13 | अ.ज.जा. |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 20 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 45 | जिनवानी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अ.ज.जा. |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 19 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 46 | जानसूर | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 47 | नयापूरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ.ज.जा. |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----|---------------|
| 47 | नयापूरा | 15 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 48 | लेहकी | 1 | अ.ज.जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 49 | मोहाईजागीर | 1 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|-----|-------------------|
| 49 | मोहाईजागीर | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 16 | अ. जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. |
| | | 18 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचा.-निर्वा.-आरक्षण-2009.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 50 | डेहरिया | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----|-------------------|
| 50 | डेहरिया | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | पिछड़ा वर्ग |
| | | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 51 बामनीखुर्द | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अ. जा. महिला |
| | 4 | अ. जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | अ. जा. |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 52 बुरुट | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ. जा. महिला |
| | 3 | अ. जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 53 कोथमीर | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग |
| | 3 | अ. ज. जा. |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अ. जा. महिला |
| | 6 | अ. जा. |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 54 पीपलकोटा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अ. जा. महिला |
| | 14 | अ. जा. महिला |
| | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अ. जा. |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 55 गर्डी झाबरिया | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अ. जा. |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------------|-----|-------------------|
| 55 गडी झाबरिया | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ. ज. जा. |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | अ. जा. |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अ. ज. जा. |
| | 19 | अ. जा. महिला |
| | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 56 पांगरी | 1 | पिछड़ा वर्ग |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ. जा. |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ. जा. महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 57 बामनी बुजुर्ग | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अ. जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ. जा. |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ. जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अ. जा. महिला |
| | 18 | अ. जा. |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग |
| | 20 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 58 रेहमानपुर | 1 | अ. जा. महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|-----|-------------------|
| 58 रेहमानपुर | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग |
| | 7 | अ. जा. |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 59 पलासी | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ. जा. महिला |
| | 5 | अ. जा. |
| | 6 | अ. जा. |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ. जा. महिला |
| | 9 | अ. जा. |
| | 10 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 60 सलामतपुरा | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|-----|-------------------|
| 60 सलामतपुरा | 3 | अ. जा. |
| | 4 | अ. जा. महिला |
| | 5 | अ. जा. |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | अ. जा. महिला |
| | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | 11 | अ. जा. महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ. जा. |
| | 16 | अ. ज. जा. |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 19 | अ. जा. महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 61 बैरागढ़ा | 1 | अ. ज. जा. |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. |
| | 6 | अ. जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अ. ज. जा. |
| | 15 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|-----|-----------------|
| बैरागढ़ा | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अ. ज. जा. |
| | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 62 ईकलेरा | 1 | अ. ज. जा. |
| | 2 | अ. ज. जा. |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अ. जा. |
| | 7 | अ. जा. |
| | 8 | अ. ज. जा. |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | 12 | अ. जा. महिला |
| | 13 | अ. जा. महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | 19 | अ. ज. जा. |
| | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश

पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 63 बैड़गांव | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अ. जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित महिला |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अ. जा. |
| | 7 | अ. जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | 14 | अ. ज. जा. |
| | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | 16 | अ. ज. जा. |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अ. जा. |
| | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 64 खल | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-----|-----------------|
| 64 खल | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | 7 | अ. ज. जा. |
| | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | 9 | अ. जा. |
| | 10 | अ. जा. महिला |
| | 11 | अ. जा. महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ. ज. जा. |
| | 16 | अ. ज. जा. |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | 19 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 65 डाबरी बुजर्ग | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ. जा. |
| | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अ. जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 66 बड़ौदामाफी | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अ. जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ. जा. |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | अ. ज. जा. |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. |
| | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 67 बाल्या | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| 67 बाल्या | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अ. ज. जा. |
| | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | 7 | अ. ज. जा. |
| | 8 | अ. जा. |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ. जा. महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 68 खिरोदा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ. जा. |
| | 12 | अ. जा. |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | अनारक्षित |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अ. जा. |
| | 17 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|--------------|
| 68 खिरोदा | 18 | अ. जा. महिला |
| | 19 | अ. जा. महिला |
| | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 69 भण्डारिया | 1 | अ. जा. |
| | 2 | अ. जा. महिला |
| | 3 | अ. जा. |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अ. ज. जा. |
| | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | 9 | अ. जा. महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 70 टिपरास | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. |
| | 3 | अ. जा. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| 70 टिपरास | 4 | अ. ज. जा. |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | अ. जा. महिला |
| | 10 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ. जा. महिला |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित |
| | 16 | अनारक्षित महिला |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | अनारक्षित महिला |
| | 19 | अनारक्षित |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 71 बिचकुआ | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | 4 | अ. जा. |
| | 5 | अ. जा. महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | अ. जा. |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अ. जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ. ज. जा. |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग |
| | 16 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 72 बडकनखारी | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अ. जा. महिला |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | अनारक्षित महिला |
| | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. |
| | 13 | अ. जा. |
| | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | 15 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 73 गाडागांव | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 4 | अ. जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|-----|-------------------|
| 73 गाडागांव | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | 14 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 74 निमासा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अ. ज. जा. |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत

के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 75 सिन्दाणी | 1 | अ. ज. जा. |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. |
| | 4 | अ. ज. जा. |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. |
| | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | 14 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 76 सुरमन्या | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | 7 | अ. ज. जा. |
| | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | 9 | अ. ज. जा. |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | 13 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 77 सिंगलादेह | 1 | अ. ज. जा. |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | 4 | अ. ज. जा. |
| | 5 | अ. ज. जा. |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. |
| | 13 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 78 बाईजगवाड़ा | 1 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अनारक्षित महिला |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|---------------|-----|-------------------|
| 78 बाईजगवाड़ा | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | अ. ज. जा. |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अ. ज. जा. |
| | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | 15 | अ. जा. महिला |
| | 16 | अ. ज. जा. |
| | 17 | अनारक्षित |
| | 18 | पिछड़ा वर्ग |
| | 19 | अनारक्षित महिला |
| | 20 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 79 गोलागुठान | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अनारक्षित महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | 4 | अनारक्षित |
| | 5 | अ. ज. जा. |
| | 6 | अनारक्षित |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | अनारक्षित |
| | 9 | अनारक्षित महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 13 | अ. जा. |
| | 14 | अ. जा. महिला |
| | 15 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 80 नामनपुर | 1 | अनारक्षित महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | अ. ज. जा. |
| | 8 | अ. जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अ. जा. |
| | 14 | अ. जा. महिला |
| | 15 | अ. जा. महिला |
| | 16 | अ. जा. |
| | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 81 धांसड़ | 1 | अनारक्षित |
| | 2 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | पिछड़ा वर्ग |
| | 5 | अनारक्षित |
| | 6 | अनारक्षित महिला |
| | 7 | अनारक्षित |
| | 8 | अनारक्षित महिला |
| | 9 | अ. ज. जा. |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अ. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-------------------|
| 81 धांसड़ | 15 | अ. ज. जा. |
| | 16 | पिछड़ा वर्ग |
| | 17 | अनारक्षित महिला |
| | 18 | अनारक्षित |
| | 19 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 82 भामर | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अनारक्षित |
| | 3 | पिछड़ा वर्ग |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अनारक्षित महिला |
| | 6 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अ. जा. महिला |
| | 11 | अ. जा. महिला |
| | 12 | अनारक्षित |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 15 | अनारक्षित महिला |
| | 16 | अ. ज. जा. |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अ. जा. |
| | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 83 पोखरखुर्द | 1 | अ. जा. महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------|-----|-------------------|
| 83 पोखरखुर्द | 3 | अनारक्षित |
| | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 8 | पिछड़ा वर्ग |
| | 9 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 10 | अनारक्षित महिला |
| | 11 | अनारक्षित |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 84 निमलाय | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | 4 | अ. जा. महिला |
| | 5 | पिछड़ा वर्ग |
| | 6 | अ. ज. जा. |
| | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | 8 | अ. ज. जा. |
| | 9 | अ. ज. जा. |
| | 10 | अ. ज. जा. |
| | 11 | पिछड़ा वर्ग महिला |
| | 12 | पिछड़ा वर्ग |
| | 13 | अनारक्षित |
| | 14 | पिछड़ा वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पंचायत-निर्वा.-आरक्षण-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—कन्नौद

| ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्रमांक | आरक्षण का प्रकार |
|---------------------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 85 खारिया | 1 | अ. जा. |
| | 2 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|-----|-----------------|
| 85 खारिया | 3 | अ. ज. जा. |
| | 4 | अ. जा. महिला |
| | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | 7 | अ. जा. महिला |
| | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | 9 | अनारक्षित |
| | 10 | अनारक्षित |
| | 11 | अनारक्षित महिला |
| | 12 | अनारक्षित महिला |
| | 13 | अनारक्षित महिला |
| | 14 | अनारक्षित महिला |
| | 15 | अ. ज. जा. |
| | 16 | अनारक्षित |
| | 17 | अ. ज. जा. |
| | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | 19 | अ. ज. जा. |
| | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (1) औंकारा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | औंकारा | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (2) पटरानी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2 | पटरानी | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (3) मचवास के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | मचवास | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 3 | मचवास | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (4) पलासी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | पलासी | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (5) निवारदी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5 | निवारदी | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (6) सागोन्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6 | सागोन्या | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| 15 | अ. ज. जा. | | |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (7) ककडदी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7 | ककडदी | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (8) विक्रमपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8 | विक्रमपुर | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------|-----|-----------------|
| 8 | विक्रमपुर | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. जा. |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | पि. वर्ग महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (9) आमला वक्के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9 | आमला | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पि. वर्ग |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (10) बंडी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10 | बंडी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | पि. वर्ग |
| | | 16 | अ. ज. जा. |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | पि. वर्ग महिला |
| | | 19 | पि. वर्ग महिला |
| | | 20 | पि. वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (11) अमेली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 11 | अमेली | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------|-----|-----------------|
| 11 | अमेली | 4 | पि. वर्ग महिला |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पि. वर्ग |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अ.ज.जा. |
| | | 16 | अ.ज.जा. |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अजा महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (12) सुलगांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 12 | सुलगांव | 1 | अजा महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अजा |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पि. वर्ग |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (13) किशनपुर के

वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 13 | किशनपुर | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अजा |
| | | 4 | अजा महिला |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 12 | अ.ज.जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (14) लीली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 14 | लीली | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (15) **औलम्बा** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**खातेगांव**

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15 | औलम्बा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अजा महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अजा |
| | | 10 | अ.ज.जा. |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अ.ज.जा. |
| | | 13 | अजा महिला |
| | | 14 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 17 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (16) **सुकरास** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**खातेगांव**

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 16 | सुकरास | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | अजा |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-----------------|
| 16 | सुकरास | 3 | अजा महिला |
| | | 4 | पि. वर्ग महिला |
| | | 5 | अ.ज.जा. |
| | | 6 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 7 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अ.ज.जा. |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (17) **सोमगांव** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**खातेगांव**

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 17 | सोमगांव | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 3 | अ.ज.जा. महिला |
| | | 4 | अजा |
| | | 5 | अजा महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | अ.ज.जा. |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (18) **सुकेडी** के वार्डों

का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 18 | सुकेडी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (19) पुरोनी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 19 | पुरोनी | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-----------------|
| 19 | पुरोनी | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. |
| | | 16 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (20) जियागांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

सारणी

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 20 | जियागांव | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | पि. वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | पि. वर्ग |
| | | 17 | पि. वर्ग महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत

निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (21) देवला के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 21 | देवला | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | पि. वर्ग |
| | | 7 | पि. वर्ग महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | पि. वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (22) बच्छखाल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 22 | बच्छखाल | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पि. वर्ग महिला |
| | | 13 | पि. वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | पि. वर्ग |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |
| | | 20 | पि. वर्ग |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (23) खारदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 23 | खारदा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | पि. वर्ग |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | पि. वर्ग महिला |
| | | 13 | पि. वर्ग |
| | | 14 | अ. जा. |
| | | 15 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (24) खल के वार्ड का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 24 | खल | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अ. जा. |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (25) दीपगांव के वार्ड का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 25 | दीपगांव | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पि. वर्ग |
| | | 15 | अ. जा. महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (26) कांकरिया के वार्ड का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 26 | कांकरिया | 1 | पि. वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पि. वर्ग महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (27) गूजरगांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 27 | गूजरगांव | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (28) बडदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 28 | बडदा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | पि. वर्ग महिला |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | अ. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | पि. वर्ग |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (29) तिवडिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 29 | तिवडिया | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पि. वर्ग |
| | | 14 | पि. वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ. ज. जा. |
| | | 18 | अ. जा. |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (30) सन्नौद के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 30 | सन्नौद | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पि. वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पि. वर्ग |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (31) रिछी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 31 | रिछी | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (32) चंदवाना के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 32 | चंदवाना | 1 | पि. वर्ग |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पि. वर्ग |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पि. वर्ग महिला |
| | | 14 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (33) **डिडाली** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**खातेगांव**

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 33 | डिडाली | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | पि. वर्ग |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (34) **बरबई** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**खातेगांव**

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 34 | बरबई | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अ. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |
| | | 17 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (35) **कंवलासा** के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—**खातेगांव**

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 35 | कंवलासा | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | पि. वर्ग |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अ. ज. जा. |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (36) भटासा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 36 | भटासा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | पि. वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (37) पाडियादेह के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 37 | पाडियादेह | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. ज. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग महिला |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------|-----|-----------------|
| 37 | पाडियादेह | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अ. जा. |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | अ. जा. |
| | | 15 | पि. वर्ग |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (38) साक्टया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 38 | साक्टया | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. जा. महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009.

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (39) बरछाबुजुर्ग के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 39 | बरछाबुजुर्ग | 1 | पि. वर्ग |
| | | 2 | पि. वर्ग महिला |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. जा. |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | पि. वर्ग |
| | | 16 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 17 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (40) संदलपुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40 | संदलपुर | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----|-----------------|
| 40 | संदलपुर | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पि. वर्ग |
| | | 12 | पि. वर्ग |
| | | 13 | पि. वर्ग महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अनारक्षित महिला |
| | | 16 | अ. जा. |
| | | 17 | अ. जा. महिला |
| | | 18 | पि. वर्ग महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (41) पीपल्यानानकार के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 41 | पीपल्यानानकार | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | पि. वर्ग |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | पि. वर्ग महिला |
| | | 16 | पि. वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (42) बीजापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 42 | बीजापुर | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. जा. महिला |
| | | 14 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (43) इकलेरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 43 | इकलेरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | पि. वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-----|-----------------|
| 43 | इकलेरा | 4 | अ. जा. |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | पि. वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अ. जा. महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | पि. वर्ग |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (44) खिडक्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 44 | खिडक्या | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (51) सवासडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 51 | सवासडा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अ. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (52) भीलखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 52 | भीलखेड़ी | 1 | पि. वर्ग |
| | | 2 | अ. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------|-----|-----------------|
| 52 | भीलखेड़ी | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | पि. वर्ग महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (53) अजनास के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 53 | अजनास | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग महिला |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | पि. वर्ग |
| | | 5 | पि. वर्ग महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | पि. वर्ग |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित |
| | | 15 | अ. जा. |
| | | 16 | अ. जा. महिला |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 18 | अ. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (54) मालसगोदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 54 | मालसगोदा | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (55) उमरिया के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 55 | उमरिया | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | पि. वर्ग महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | पि. वर्ग |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (56) मेलपीपल्या के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 56 | मेलपीपल्या | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | पि. वर्ग |
| | | 6 | पि. वर्ग महिला |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. ज. जा. |
| | | 12 | पि. वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (57) मिर्जापुर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 57 | मिर्जापुर | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (58) कांजीपुरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 58 | कांजीपुरा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पि. वर्ग महिला |
| | | 4 | पि. वर्ग |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (59) कणाबुजुर्ग के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 59 | कणाबुजुर्ग | 1 | अ. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | पि. वर्ग |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 4 | पि. वर्ग |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (60) खुडगांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 60 | खुडगांव | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. जा. |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | अ. जा. महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (61) राजौर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 61 | राजौर | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अ. ज. जा. |
| | | 9 | अ. ज. जा. |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अ. जा. महिला |
| | | 13 | अ. जा. |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (62) नेमावर के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 62 | नेमावर | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अ. जा. |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अनारक्षित महिला |
| | | 15 | पि. वर्ग |
| | | 16 | पि. वर्ग |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अ. जा. महिला |
| | | 20 | अनारक्षित महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (64) लकडानी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 64 | लकडानी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित महिला |
| | | 9 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | अ. जा. महिला |
| | | 15 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 16 | अ. ज. जा. |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (65) गनोरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 65 | गनोरा | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | अनारक्षित महिला |
| | | 3 | अ. ज. जा. |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | पि. वर्ग |
| | | 6 | अ. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | अनारक्षित महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | पि. वर्ग महिला |
| | | 14 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 15 | पि. वर्ग महिला |
| | | 16 | अ. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (66) हरणगांव के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 66 | हरणगांव | 1 | पि. वर्ग महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | अनारक्षित महिला |
| | | 4 | अ. जा. महिला |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अनारक्षित |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | अ. जा. |
| | | 12 | पि. वर्ग महिला |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | पि. वर्ग महिला |
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अ. ज. जा. |
| | | 17 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 18 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 19 | अ. ज. जा. |
| | | 20 | अ. ज. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (67) मनोरा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 67 | मनोरा | 1 | अ. जा. महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | पि. वर्ग महिला |
| | | 4 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 5 | अ. ज. जा. |
| | | 6 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | पि. वर्ग |
| | | 9 | पि. वर्ग |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (68) धुध्याखेड़ी के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 68 | धुध्याखेड़ी | 1 | अनारक्षित |
| | | 2 | पि. वर्ग महिला |
| | | 3 | पि. वर्ग |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित |
| | | 7 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (69) बागदा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 69 | बागदा | 1 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 2 | अ. जा. |
| | | 3 | अनारक्षित |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. ज. जा. |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | पि. वर्ग महिला |
| | | 9 | पि. वर्ग महिला |
| | | 10 | अनारक्षित महिला |
| | | 11 | अनारक्षित |
| | | 12 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (70) धायली के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 70 | धायली | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. जा. महिला |
| | | 4 | अनारक्षित महिला |
| | | 5 | अ. जा. महिला |
| | | 6 | अ. जा. |
| | | 7 | अ. जा. |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (71) दुदवास के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. (1) | ग्राम पंचायत का नाम (2) | वार्ड क्र. (3) | आरक्षण का प्रकार (4) |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 71 | दुदवास | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | पि. वर्ग |
| | | 3 | पि. वर्ग महिला |
| | | 4 | अनारक्षित |
| | | 5 | अनारक्षित महिला |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग |
| | | 8 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | अनारक्षित |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित महिला |
| | | 13 | अनारक्षित महिला |
| | | 14 | अ. जा. |
| | | 15 | पि. वर्ग महिला |
| | | 16 | अ. जा. |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित |
| | | 19 | अ. जा. महिला |
| | | 20 | अ. जा. महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (72) बजवाडा के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 72 | बजवाडा | 1 | अनारक्षित महिला |
| | | 2 | अ. जा. महिला |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | पि. वर्ग महिला |
| | | 5 | पि. वर्ग |
| | | 6 | पि. वर्ग |
| | | 7 | अनारक्षित महिला |
| | | 8 | अ. जा. महिला |
| | | 9 | अनारक्षित |
| | | 10 | पि. वर्ग महिला |
| | | 11 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 12 | अ. ज. जा. |
| | | 13 | अनारक्षित |
| | | 14 | अनारक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----------------|
| | | 15 | अनारक्षित |
| | | 16 | अनारक्षित महिला |
| | | 17 | अनारक्षित |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | पि. वर्ग महिला |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्र. 11444-पं.-नि.अ-09.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत (73) मुरझाल के वार्डों का नियमानुसार आरक्षण निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

खण्ड का नाम—खातेगांव

| अ. क्र. | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड क्र. | आरक्षण का प्रकार |
|---------|---------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 73 | मुरझाल | 1 | अ. ज. जा. |
| | | 2 | अनारक्षित |
| | | 3 | अ. जा. |
| | | 4 | अ. जा. महिला |
| | | 5 | अनारक्षित |
| | | 6 | अनारक्षित महिला |
| | | 7 | पि. वर्ग महिला |
| | | 8 | अनारक्षित |
| | | 9 | अनारक्षित महिला |
| | | 10 | अ. जा. महिला |
| | | 11 | पि. वर्ग महिला |
| | | 12 | अनारक्षित |
| | | 13 | अ. ज. जा. महिला |
| | | 14 | पि. वर्ग |
| | | 15 | पि. वर्ग |
| | | 16 | पि. वर्ग महिला |
| | | 17 | अनारक्षित महिला |
| | | 18 | अनारक्षित महिला |
| | | 19 | अनारक्षित |
| | | 20 | अनारक्षित |

सचिन सिन्हा, कलेक्टर.